



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 2006/अग्रहायण 6, 1928

No. 173]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 2006/AGRAHAYANA 6, 1928

बड़ौदा पूर्वी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

शुद्धिपत्र

रायबरेली, 27 नवम्बर, 2006

भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4, संख्या 132 दिनांक 5 सितम्बर, 2006 में अधिसूचित बड़ौदा पूर्वी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 के हिन्दी रूपान्तर का शुद्धिपत्र

क्रम संख्या	विवरण	राजपत्र में प्रकाशित	इस प्रकार पढ़ें
1	पृष्ठ सं. 1 (अधिसूचना दिनांक) "NEW DELHI, TUESDAY" के बाद	AUGUST 5, 2006	SEPTEMBER 5, 2006
2	पृष्ठ सं. 1, अध्याय -I, उपबन्ध -1 (क) प्रथम पंक्ति में "व्यक्ति पर" के बाद	,	।
3	पृष्ठ सं. 2, अध्याय -I, उपबन्ध -2 (द) प्रथम पंक्ति में "करने वाला" के बाद	अधिकारी	अधिकारी,
4	पृष्ठ सं. 4, अध्याय -II, उपबन्ध -8 (iii) प्रथम पंक्ति में "जिसे नियुक्ति" के बाद	पदाधिकारी	प्राधिकारी
5	पृष्ठ सं. 4, अध्याय -II, उपबन्ध -10 (1) (क) प्रथम पंक्ति में "या आगे" के बाद	जारी रखने	जारी न रखने
6	पृष्ठ सं. 5, अध्याय -II, उपबन्ध -11(1) (i) दसवीं पंक्ति में "अभ्यावेदन मिलने" के बाद	पर कोई	पर बोर्ड कोई
7	पृष्ठ सं. 5, अध्याय -II, उपबन्ध -11(1) (i) ग्यारहवीं पंक्ति में "अवधि के भीतर" के बाद	निर्णय लेता	निर्णय लेगा। जहाँ बोर्ड यह निर्णय लेता
8	पृष्ठ सं. 5, अध्याय -III, उपबन्ध -13 (i) प्रथम पंक्ति में "(3), (4)" के बाद	(5) और (6)	और (5)
9	पृष्ठ सं. 5, अध्याय -III, उपबन्ध -13 (ii) (क) प्रथम पंक्ति में	(ii) (क)	(iii) (क)
10	पृष्ठ सं. 5, अध्याय -III, उपबन्ध -13 (iii) (ख) द्वितीय पंक्ति में "की गणना" के बाद	उससे	उनकी इसके
11	पृष्ठ सं. 5, अध्याय -III, उपबन्ध -13 (iii) (ख) द्वितीय पंक्ति में "या वेतनमान" के बाद	जैसा भी मामला हो, के	में उनकी वरिष्ठता के
12	पृष्ठ सं. 5, अध्याय -III, उपबन्ध -13 (iv) तीसरी पंक्ति में "वरिष्ठता की" के बाद	गणना उस तरह	गणना इस तरह

## बड़ौदा पूर्वी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Annexure - A

क्रम संख्या	विवरण	राजपत्र में प्रकाशित	इस प्रकार पढ़ें
13	पृष्ठ सं. 5, अध्याय -III, उपबन्ध -13 (iv) चौथी पंक्ति में "तुलना में" के बाद	वारंछ	कानिष्ठ
14	पृष्ठ सं. 6, अध्याय -III, उपबन्ध -13 (v) दूसरी पंक्ति में "बशर्ते" के बाद	कि सामान्य	कि यदि सामान्य
15	पृष्ठ सं. 6, अध्याय -IV, उपबन्ध -20 दूसरी पंक्ति में "कोई भी" के बाद	लेखा	लेख
16	पृष्ठ सं. 6, अध्याय -IV, उपबन्ध -21, पांचवीं पंक्ति में "सकता है कि" के बाद	उसमें	उससे
17	पृष्ठ सं. 7, अध्याय -IV, उपबन्ध -21 स्पष्टीकरण (iii) छठवीं पंक्ति में "हो या किसी" के बाद	साहित्यिक	साहित्यिक
18	पृष्ठ सं. 7, अध्याय -IV, उपबन्ध -22 (1) दूसरी पंक्ति में "चिकित्सा" के बाद	प्रमाण	प्रमाण पत्र
19	पृष्ठ सं. 7, अध्याय -IV, उपबन्ध -22 (2) चौथी पंक्ति में "छुट्टी में" के बाद	रहा जो	रहा हो जो
20	पृष्ठ सं. 7, अध्याय -IV, उपबन्ध -22 (2) पाँचवीं पंक्ति में "या अधिक" के बाद	छुट्टी को अनदेखी	छुट्टी की अनदेखी
21	पृष्ठ सं. 7, अध्याय -IV, उपबन्ध -25 प्रथम पंक्ति में "शेयरो," के बाद	प्रतिभूतियों या	प्रतिभूतियों पर
22	पृष्ठ सं. 8, अध्याय -IV, उपबन्ध -26 (1)(ii) प्रथम पंक्ति में "डिलीवरी या" के बाद	स्क्रिप्स	स्क्रिप्ट
23	पृष्ठ सं. 8, अध्याय -IV, उपबन्ध -27 (1) प्रथम पंक्ति में "प्रत्येक" के बाद	अधिकारी अथवा कर्मचारी	अधिकारी,
24	पृष्ठ सं. 8, अध्याय -IV, उपबन्ध -27 (1) (क) द्वितीय पंक्ति में "परिवार के" के बाद	किसी अन्य सदस्य	किसी सदस्य
25	पृष्ठ सं. 8, अध्याय -IV, उपबन्ध -27 (1) (ख) प्रथम पंक्ति में "विरासत में" के बाद	प्राप्त उपयुक्त	प्राप्त या उपयुक्त
26	पृष्ठ सं. 8, अध्याय -IV, उपबन्ध -27 (1) (ग) प्रथम पंक्ति में "प्राप्त और" के बाद	उपयुक्त रूप में	उपयुक्त रूप से
27	पृष्ठ सं. 8, अध्याय -IV, उपबन्ध -27 (1) (घ) प्रथम पंक्ति में "रूप से" के बाद	लिए गये कर्ज	लिए कर्ज
28	पृष्ठ सं. 8, अध्याय -IV, उपबन्ध -27 (3) दूसरी पंक्ति में "पट्टे, बंधक" के बाद	क्रय - विक्रय	विक्रय
29	पृष्ठ सं. 9, अध्याय -IV, उपबन्ध -27 (5) प्रथम पंक्ति में "सक्षम" के बाद	अधिकारी	प्राधिकारी
30	पृष्ठ सं. 9, अध्याय -IV, उपबन्ध -28 (1) (ii) प्रथम पंक्ति में "कर्मचारी अपने" के बाद	पति या पत्नी	पति या अपनी पत्नी
31	पृष्ठ सं. 9, अध्याय -IV, उपबन्ध -28 (2) प्रथम पंक्ति में "करता है" के बाद	तो वो	तो वह
32	पृष्ठ सं. 9, अध्याय -IV, उपबन्ध -29 (2) दूसरी पंक्ति में "मामले की" के बाद	परिस्थिति	परिस्थितियों
33	पृष्ठ सं. 10, अध्याय -IV, उपबन्ध -31 (1) (क) प्रथम पंक्ति में "अर्थ में" के बाद	कर्मकार हैं, वे किसी	कर्मकार हैं, के किसी
34	पृष्ठ सं. 10, अध्याय -IV, उपबन्ध -31 (2) प्रथम पंक्ति में "करता है जो" के बाद	उपयुक्त	उपयुक्त
35	पृष्ठ सं. 11, अध्याय -IV, उपबन्ध -38 (1)(क) (ii) प्रथम पंक्ति में "सहित या रहित" के बाद	वेतन वृद्धियों रोक	वेतन रोक

## बड़ौदा पूर्वी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

Annexure - A

क्रम संख्या	विवरण	राजपत्र में प्रकाशित	इस प्रकार पढ़ें
36	पृष्ठ सं. 12, अध्याय -IV, उपबन्ध -38 (1)(ख) (v) प्रथम पंक्ति में	अद्वयपदच्युति	बर्खास्तगी
37	पृष्ठ सं. 12, अध्याय -IV, उपबन्ध -38 (1) स्पष्टीकरण (iii) प्रथम पंक्ति में " हो सकता है" के बाद	स्थानापन्न	स्थानापन्न
38	पृष्ठ सं. 12, अध्याय -IV, उपबन्ध -38 (1) स्पष्टीकरण (viii) (ग) चौथी पंक्ति में " दिया जायेगा और" के बाद	अधिकारियों	अधिकारी,
39	पृष्ठ सं. 12, अध्याय -IV, उपबन्ध -38 (1) स्पष्टीकरण (viii) (ग) पाँचवीं पंक्ति में " यदि कोई" के बाद	हो, आदेश पारित	हो, को आदेश पारित
40	पृष्ठ सं. 14, अध्याय -IV, उपबन्ध -41, पृष्ठ की प्रथम पंक्ति में " सम्बन्ध में, अध्यक्ष यह" के बाद	निर्देश	निर्देश
41	पृष्ठ सं. 14, अध्याय -IV, उपबन्ध -42 (iv) द्वितीय पंक्ति में " जैसा कि" के बाद	मामला हो, कि लगाने	मामला हो, लगाने
42	पृष्ठ सं. 17, अध्याय -VI, उपबन्ध -59 (क) (1) द्वितीय पंक्ति में " कोई विशेषाधिकार" के बाद	छुट्टी नहीं की जा सकेगी	छुट्टी नहीं ली जा सकेगी
43	पृष्ठ सं. 18, अध्याय -VI, उपबन्ध -60 (1) द्वितीय पंक्ति में " जनवरी और" के बाद	जुलाई में	जुलाई के प्रथम दिन में
44	पृष्ठ सं. 18, अध्याय -VI, उपबन्ध -60 (2) (ग) तृतीय पंक्ति में " दिन की दर से" के बाद	बीमारी / मेडिकल छुट्टी से	बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी को
45	पृष्ठ सं. 18, अध्याय -VI, उपबन्ध -60 (2) (घ)(i) तृतीय पंक्ति में " है कि उसकी" के बाद	बीमारी / मेडिकल छुट्टी	बीमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी
46	पृष्ठ सं. 20	अध्याय - VIII	अध्याय - VII
47	पृष्ठ सं. 21, अध्याय -VII, उपबन्ध -70 (2) द्वितीय पंक्ति में " नहीं दी जायेगी" के बाद	तब तक की	जब तक की
48	पृष्ठ सं. 21, अध्याय -VII, उपबन्ध -70 (2) द्वितीय पंक्ति में " अधिकारी या" के बाद	कर्मचारी की अपने	कर्मचारी को अपने
49	पृष्ठ सं. 21, अध्याय -VII, उपबन्ध -72 (1) प्रथम पंक्ति में " पर ऐसे" के बाद	अनुदेश जारी	अनुदेश या निर्देश जारी
50	पृष्ठ सं. 21, अध्याय -VII, उपबन्ध -72 (1) प्रथम पंक्ति में " राय में इन" के बाद	विनियमों को	विनियमों के उपबन्धों को
51	पृष्ठ सं. 21, अध्याय -VII, अनुसूची - 1 सातवीं पंक्ति में " डील करने वाले" के बाद	किसी व्यक्ति के किसी कारोबार	किसी व्यक्ति किसी कारोबार

ह ./- (अपठनीय)

अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/340 ई/2006-असा.]

**BARODA EASTERN UTTAR PRADESH GRAMIN BANK****CORRIGENDUM**

Raebareli, the 27th November, 2006

Corrigendum in respect of English Version of Baroda Eastern Uttar Pradesh Gramin Bank (Officers and Employees)  
Service Regulations, 2006 notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4, No. 132  
dated September 5, 2006

S.No.	Description	As appeared in the Gazette	May be read as
1	Page-24, Chapter-I, Clause 2(q)-in the first line after the words "Sponsor Bank means"	Punjab National Bank	Bank Of Baroda
2	Page-27, Chapter-III, Clause 13(i)-in the second line after the words "provision of"	Sub -Regulation (ii),(iii),(iv)	Sub - Regulation (iii), (iv)
3	Page-29, Chapter-IV, Clause 26(1)(i)-in the fourth line after the words "with the"	Banks	Bank
4	Page-30, Chapter-IV, Clause 26(2)-in the fifth line after the words "an insolvency"	count	court
5	Page-32, Chapter-IV, Clause 31(1)(b)-in the third line after the words "the conditions"	service of any other employees	of service of any other employee
6	Page-41, Chapter-VI, Clause 64-in the second line after the words "in service,"	these	there
7	Page-42, Chapter-VII, Clause 69(3)(ii)-in the second line after the words "completed year"	f service	of service
8	Page-42, Chapter-VII, Clause 69(3)(ii)-in the fourth line after the words "by way"	f gratuity	of gratuity
9	Page-42, Chapter-VII, Clause 69(3)(ii)-in the fifth line after the words "service beyond"	0 Years	30 years
10	Page-42, Chapter-VII, Clause 69(3)(ii)-in the eighth line after the words "the average"	f the basic pay	of the basic pay
11	Page-42, Chapter-VII, Clause 69(3)(ii)-in the ninth line after the words "12 months,"	receding death	preceding death

Sd./-(Illegible)

Chairman

[ADVT. III/IV/340 E/2006-Exty.]